

Types of Budgeting Techniques (बजटिंग तकनीक के प्रकार)

① Line-Item based budgeting

⇒ जब सरकार आगामी वित्तीय वर्ष का बजट पूर्व वित्तीय वर्ष के बजट पर आधारित बनाती है।

② Zero based Budget (शून्य आधारित बजटिंग)

→ सर्वप्रथम → US

→ Peter Pyrr → 1969 ✓

→ पूर्व वर्ष के बजट को शून्य मानती है,
पूर्व वर्ष के बजट को शून्य मानती है,
एवं विलकुल नए सिरे से बजट तैयार करती है।

→ India → सर्वप्रथम → S & P विभाग → 1983

→ Indian Govt. → 1986-87
(Rajiv Gandhi) → इसे
प्रकार से बजट
तैयार किया था।

③ Gender-based Budget (लिंग आधारित बजटींग)

- महिलाओं को सशक्त करने के लिए।
- बजट → लक्ष्य → Gender Equality (लिंग समानता)
- भारत सरकार → सर्वप्रथम → 2005-06
- विश्व → " → Australia → 1984

④ Outcome based Budgeting (परिणाम-आधारित बजटिंग)

- Micro-level Budgeting
(सूक्ष्म स्तरीय बजटिंग)
- Department-wise, Ministry-wise.
- भारत → सर्वप्रथम → 2005-06
- इसका संचालन वित्त-मंत्रालय एवं नीति आयोग के द्वारा किया जाता है।

⑤ Performance based Budgeting (प्रदर्शन-आधारित बजटिंग)

- It a macro-level Budgeting technique
- भारत → वित्त-मंत्रालय → संपूर्ण देश के बजट तैयार करता है।

Budget

↓
Expenditures व्यय

विकास व्यय

पहले → (Earlier) → (Developmental Exp^r)

↓
(Roads, Dams, Schools,
Hospital, Metros etc)

गैर-विकास व्यय

(Non-Developmental Exp^r)

↓
(Scholarship, old Age Pension, Subsidies,
Interest Payment)

↓
1985 → Sukhmay Chakravorty

Planned Expenditure

⇒ 5 Year Plan → Based exp^r
⇒ Electricity, Water, Transportation,
कृषि, ग्रामीण विकास etc.

Non-Planned Expenditure

→ Exp^r → Don't come under purview
FYP
→ सेना की सेवाओं, मानव भुगतान, पेंशन,
Subsidies.

2011 → C. Rangarajan Committee

Govt. Expenditure

राजस्व व्यय
(Revenue Expenditure)

पूंजीगत व्यय
(Capital Ex/er.)

Govt. ने घोषणा → 2016 में
कि व्ययों को नियोजित एवं गैर-नियोजित
के स्थान पर राजस्व एवं पूंजीगत
व्यय का प्रयोग करेंगे
2018 से लागू

बजट के प्रकार $\rightarrow$ TE & TR

संतुलित बजट
(Balanced Budget)

$\Downarrow$
Total Expenditures = Total Revenues
(कुल व्यय) (कुल राजस्व)
(TE) (TR)


Deficit Budget
(घाटे का बजट)


$\Downarrow$
 $TE > TR$

अधिशेष बजट
(Surplus Budget)

$\Downarrow$
 $TE < TR$

राजत व्यय के प्रकार (Types of Budget Deficits)





$$\# \text{ FD} = \text{TE} - \left[\text{Revenue Receipts} + \text{Non-Debt Capital Receipts} \right]$$

(राजस्व प्राप्ति) (Non-Debt Capital Receipts)

Tax to GDP Ratio

कर - GDP अनुपात

⇒

$$\frac{\text{Tax}}{\text{GDP}}$$

$\frac{10}{20} = 0.5$ ✗

$\frac{20}{10} = 2$ ✓

Note:

2021-22 | 2022-23

↓
Tax / GDP = 11.4%

प्रत्यक्ष
कर
⇒
6%

अप्रत्यक्ष
कर
⇒
5.4%

GDP
↓
6%

IT
↓
5.1%

Fiscal Responsibility & Budget Management Act (FRBM)

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003

- # To balance $\rightarrow$ GR & GE
- # Introduced in 2003
- # It came into effect $\rightarrow$ 5th July, 2004
- # Objectives (उद्देश्य)
 - $\rightarrow$ Fiscal Discipline
 - $\rightarrow$ Macro-economic stability (वृद्धि - आर्थिक स्थिरता)
 - $\rightarrow$ Fiscal Consolidation (राजकोषीय समेकन)
 - $\rightarrow$ माइक्रो नीति एवं राजकोषीय नीति के बीच बेहतर समन्वय

4 Main Documents in Budget

- Macroeconomic Framework Statement. (मैक्रो - —)
 - $\rightarrow$ GDP Growth, Inflation, Revenue & Expr.
- Medium term Fiscal Policy Statement. $\rightarrow$ FP के Goals.
- Fiscal Policy Strategic Statement
 - $\rightarrow$ Plans for FP Goals.
- Medium term Expr. Framework
 - $\rightarrow$ व्यय की योजनाएं

FRBM Act

Old FRBM

[2004-09]

Vijay L. Kelkar

Fiscal Deficit $\Rightarrow$ 3% (0.3% प्रति वर्ष कम करेंगे)
2009 तक

Revenue Deficit $\rightarrow$ 2009 तक
0% (Reduce करेंगे)
0.5% / Annum

New FRBM

2016-17 - 2022-23

N.K. Singh

Fiscal Deficit $\rightarrow$ 2022-23 तक


राजस्व Deficit 2.5% (0.2% / A कम करेंगे)

Debt/GDP $\rightarrow$ 2022-23 तक

अनुपात $\rightarrow$ 60% 0.8% (कम करेंगे)
0.5% / Annum

Fiscal Council (राजकोषीय परिषद) $\rightarrow$ 40% $\rightarrow$ केंद्र सरकार
20% $\rightarrow$ राज्य सरकार

FRBM का नाम बदलकर DM & FRBMA & Rules



2021 → 88.5%

2022 → 83.8%

2023 → 81%

Escape Clause → FRBM અનુદાય
વિચાર ~~અંદા~~ +/- 0.5%

Budget

सरकार के राजस्व (Govt. Revenues)

(Govt. Expr.) सरकार के व्यय

Revenue Receipts
(राजस्व प्राप्ति)

Capital Receipts
(पूंजीगत प्राप्ति)

Revenue Expr.
(राजस्व व्यय)

Capital Expenditure
(पूंजीगत व्यय)

Tax Revenue Receipts
(कर राजस्व प्राप्ति)

Non-Tax Revenue Receipts
(कर-निम्न राजस्व प्राप्ति)

Debt Capital Receipts
(ऋण पूंजीगत प्राप्ति)

Non-Debt Capital Receipts
(ऋण-निम्न पूंजीगत प्राप्ति)

① Roads, Dams, Bridges, Metros, Hospitals, Schools के निर्माण पर व्यय

② लिया हुआ ऋण वापस करना

③ Defence Equipm रक्षा उपकरण

सभी प्रकार के कर

- ① Fee, fines & licence
- ② Gifts & Grants
- ③ Income from PSUs
- ④ Interest received from loans
- ⑤ Escheat
- ⑥ Special Assessment fee

~~Borrowings
(ऋण)~~
~~Internal Expr.~~

- ① Disinvestment
- ② Recovery of Loans

- ③ सेवा के लोगो पर
- ④ बोनस एवं प्रशस्ति
- ⑤ ऋणों पर व्याज
- ⑥ सरकारी कंपनियों

⑦ Grants to states

Types of Budget (बजट के प्रकार)

Revenue
(राजस्व)



Assets ↑
Liabilities ↓

Expenditure
(चय)

Borrowings

आंतरिक ऋण
(Internal Burr.)



① RBI

② Public Burr.
(Govt Bonds)
NSC, KVP

External Borrowings
(बाह्य ऋण)



① IMF, WB etc.
② Foreign Currency



अंतरिम बजट

2024 हाइलाइट्स



Four Major Centres





सबका साथ,
सबका विकास

सभी का व्यापक विकास




सबका साथ,
सबका विकास,
सबका विश्वास

‘सबका प्रयास’ के समर्थन से
जनसांख्यिकी, लोकतंत्र और विविधता



विकसित भारत
@ 2047

डॉलर के संदर्भ में भारत और विश्व की जीडीपी की विकास दर



बजट का सार Budget at a Glance

(₹ करोड़) (In ₹ crore)

	2022-2023 वास्तविक Actuals	2023-2024 बजट अनुमान Budget Estimates	2023-2024 संशोधित अनुमान Revised Estimates	2024-2025 बजट अनुमान Budget Estimates
1. राजस्व प्राप्तियां	2383206	2632281	2699713	3001275
2. कर राजस्व (केंद्र को निवेल)¹	2097786	2330631	2323918	2601574
3. कर भिन्न राजस्व	285421	301650	375795	399701
4. पूंजी प्राप्तियां	1809951	1870816	1790773	1764494
5. ऋणों की वसूली	26161	23000	26000	29000
6. अन्य प्राप्तियां	46035	61000	30000	50000
7. उधार और अन्य देयताएं²	1737755	1786816	1734773	1685494
8. कुल प्राप्तियां (1+4)	4193157	4503097	4490486	4765768
9. कुल व्यय (10+13)	4193157	4503097	4490486	4765768
10. राजस्व खाते पर जिसमें से	3453132	3502136	3540239	3654657
11. ब्याज भुगतान	928517	1079971	1055427	1190440
12. पूंजी खाते के सृजन हेतु सहायता अनुदान	306264	369988	321190	385582
13. पूंजी खाते पर	740025	1000961	950246	1111111
14. प्रभावी पूंजी व्यय (12+13)	1046289	1370949	1271436	1496693
15. राजस्व घाटा (10-1)	1069926	869855	840527	653383
16. प्रभावी राजस्व घाटा (15-12)	(3.9)	(2.9)	(2.8)	(2.0)
17. राजकोषीय घाटा [9-(1+5+6)]	763662	499867	519337	267801
18. प्राथमिक घाटा (17-11)	(2.8)	(1.7)	(1.8)	(0.8)
	1737755	1786816	1734773	1685494
	(6.4)	(5.9)	(5.8)	(5.1)
	809228	706845	679346	495054
	(3.0)	(2.3)	(2.3)	(1.5)



47,65,768

बजट 2024-25



RD > PD

5.1% of GDP

प्राप्तियां और व्यय



प्राप्तियां और व्यय



Rupee Comes From

बजट-2024

Comes from
या कहीं से
(आधेगा)

गम क
कर
शुल्क
Expend
18%

① Borrowing → 28%
② NDCR → 1%

उधार और अन्य देयताएं
Borrowings & Other
liabilities, 28
[पै. p.]

ऋण भिन्न पूंजी
प्राप्तियां
Non-debt Capital
receipts, 1 [पै. p.]
ऋण-भिन्न प्राप्तियां
Non-tax receipts, 7
[पै. p.]


माल और सेवा कर और
अन्य कर
Goods & Service Tax
& Other taxes, 18 [पै. p.]

निगम कर
Corporation-tax, 17 [पै. p.]


आय कर
Income-tax, 19
[पै. p.]

सीमा शुल्क
Customs, 4 [पै. p.]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
Union Excise Duties, 5
[पै. p.]



GM 12



गरीब कल्याण, देश का कल्याण


डीबीटी से ₹2.7 लाख करोड़ की बचत हुई है

25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए

पीएम-स्वनिधि के तहत 78 लाख रेहडी पटरी वालों को
ऋण सहायता



गरीबों की संख्या
के प्रतिशत में कमी




युवाओं का सशक्तीकरण

1.4 करोड़ युवाओं को कौशल भारत मिशन के तहत प्रशिक्षण प्राप्त हुआ

युवाओं की उद्यमी बनने की आकांक्षाओं को बढ़ावा देते हुए-पीएम मुद्रा योजना के तहत 43 करोड़ ऋण स्वीकृत किए गए



पीएम-श्री बजट आवंटन में बढ़ोत्तरी



आईआईटी

16

23

2014

2023

एम्स

7

22

2014

2022

विश्वविद्यालय

723

1113

2014

2023

किसान-अन्नदाता का कल्याण


पीएम-किसान के तहत 11.8 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा

₹ 3 लाख करोड़ के व्यापारिक वॉल्यूम का समर्थन करने वाले ई-एनएएम के तहत 1,361 मंडियों का समेकन



गेहूं और चावल की खरीद का बढ़ना



नारी शक्ति

महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण संवितरित किए गए


10 वर्षों में उच्चतर शिक्षा में महिलाओं के नामांकन में 28 प्रतिशत की वृद्धि

स्टेम पाठ्यक्रमों में महिलाओं का 43 प्रतिशत नामांकन

83 लाख स्व-सहायता समूहों की सहायता से 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनीं



श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी का बढ़ना



अमृत काल के लिए कार्यनीति (1/5)

संधारणीय विकास

वर्ष 2070 तक 'निवल शून्य' की प्रतिबद्धता को पूरा करना

- पवन ऊर्जा के लिए व्यवहार्यता अंतर निधियन
- कोयला, गैसीकरण और तरलीकरण क्षमता की स्थापना
- सीएनजी, पीएनजी और संपीड़ित वायोगैस का चरणबद्ध अनिवार्य मिश्रण
- बायोमास एक्त्रीकरण मशीनरी की खरीद के लिए वित्तीय सहायता



छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना – प्रति माह 300 यूनिट फ्री बिजली पाने में 1 करोड़ परिवारों की सहायता




- सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के लिए ई-बसों को अपनाना
- ई-वाहन के विनिर्माण और चार्जिंग द्वारा ई-वाहन ईकोसिस्टम को मजबूत बनाना



पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों में सहायता के लिए बायो-मैनुफैक्चरिंग और बायो-फाउंड्री की नई योजना शुरू की जानी है



गैर जीवाश्म ईंधन पर आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता के प्रतिशत में वृद्धि



- पीएमयूवाई के तहत >10 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए
- उजाला के तहत 36.9 करोड़ एलईडी बल्ब, 72.2 लाख एलईडी ट्यूब लाइट और 23.6 लाख ऊर्जा कुशल पंखों का वितरण किया गया
- एसएनएलपी के तहत 1.3 करोड़ एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई गईं

अवसंरचना और निवेश

लॉजिस्टिक कार्यकुशलता बढ़ाने तथा लागत को कम करने के लिए पीएम गति शक्ति के अंतर्गत 3 बड़े रेलवे कोरिडोर कार्यक्रमों को लागू करना



द्विपक्षीय निवेश समझौते के माध्यम से विदेशी निवेश को बढ़ावा देना




उड़ान योजना के अंतर्गत मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार तथा नए हवाई अड्डे का व्यापक विकास




मेट्रो रेल और नमो भारत के द्वारा शहरों में परिवर्तनों को बढ़ावा देना




पूँजीगत व्यय में वृद्धि



एफडीआई के अंतर्प्रवाह को दुगुना करना



भौतिक अवसंरचना में सुधार




समावेशी विकास (1/2)

रोजगार सृजन सहित तेजी से विकास में राज्यों को सहायता करने के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम



आकांक्षी जिलों में समावेशी विकास (112)



स्वास्थ्य



बालिकाओं (9-14 वर्ष) को सर्वाइकल कैंसर के टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करना



बेहतर पोषण उपलब्धता, बचपन में आरंभिक देखभाल और विकास के लिए सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 में तेजी लाई जाएगी



मिशन इंद्रधनुष के टीकाकरण प्रयास के लिए यू-विन प्लेटफॉर्म आरंभ किया जाएगा



आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सभी आशाकर्मियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को स्वास्थ्य बीमा






आवासन

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) 3 करोड़ आवास के लक्ष्य को प्राप्त करने के निकट है, अगले 5 वर्षों में अतिरिक्त 2 करोड़ आवास का लक्ष्य

अपना घर खरीदने/बनाने के लिए मध्यम वर्ग को प्रोत्साहित करने हेतु मध्यम वर्ग आवास योजना आरंभ की जाएगी

पीएमएवाई के लिए अधिक आवंटन





पर्यटन

कारोबार को आकर्षित करने तथा स्थानीय उद्यमशीलता के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों का विकास आरंभ करने हेतु राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा

विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को दीर्घावधिक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे



60 स्थानों पर जी20 की बैठकें करके वैश्विक दर्शकों को भारत की विविधता दिखाई गई

लक्षद्वीप सहित अन्य द्वीपों में पत्तन कनेक्टिविटी, पर्यटन अवसंरचना और सुविधाओं के लिए परियोजनाएं आरंभ की जाएंगी

कृषि और खाद्य प्रसंस्करण

सरकार फसल कटाई के क्रियाकलापों में निजी और सरकारी निवेश को बढ़ावा देगी



नैनो-डीएपी का प्रयोग सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में बढ़ाया जाएगा



आत्मनिर्भर तिलहन अभियान- तिलहनों के लिए आत्मनिर्भरता हासिल करने हेतु कार्यनीति तैयार की जाएगी



डेयरी विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा




प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कार्यान्वयन का विस्तार ताकि जल कृषि उत्पादकता, दोहरे निर्यात और रोजगार के पर्याप्त अवसरों को बढ़ावा दिया जा सके


5 एकीकृत एक्वापार्क स्थापित करना





नीली क्रांति के लिए अधिक आवंटन




पीएम-सुक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम विकास योजना के लिए अधिक आवंटन







Declining GNPA's as % of Gross Advances



Rising volume of Digital Transactions



Rise in average monthly gross GST collections



Fall in Headline Inflation



कराधान सुधारों की उपलब्धियां

प्रत्यक्ष कर संग्रहण में पिछले 10 वर्षों में तीन गुणा से अधिक वृद्धि



विवरण दाखिलकर्ताओं की संख्या 2.4 गुणा बढ़ी




तेज रिफंड (प्रतिदाय/धन वापसी): विवरणियों के औसत संसाधन समय 93 दिवस (2013-14) से कम होकर 10 दिवस रह गया



Average monthly Gross GST collections doubled to ₹1.66 lakh crore in FY24

Increase in tax buoyancy of State revenue from 0.72 (2012-16) to 1.22 in the post-GST period (2017-23)



Benefit to consumers:
Reduction in logistics cost and prices of most goods and services

Retention of same tax rates: -

- For direct and indirect taxes, including import duties
- For Corporate Taxes-22% for existing domestic companies, 15% for certain new manufacturing companies
- No tax liability for taxpayers with income up to ₹7 lakh under the new tax regime



विशिष्ट मंत्रालयों को आवंटन

रैंलाख करोड़ में



रक्षा मंत्रालय

6.2



सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

2.78



रेल मंत्रालय

2.55



उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण
मंत्रालय

2.13

विशिष्ट मंत्रालयों को आवंटन



गृह मंत्रालय

2.03



ग्रामीण विकास मंत्रालय

1.77



रसायन और उर्वरक मंत्रालय

1.68



संचार मंत्रालय

1.37



कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

1.27

प्रमुख स्कीमों के लिए आवंटन (₹ करोड़ में)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

60,000



86,000

2023-24(ब.अ.) 2024-25(ब.अ.)

आयुष्मान भारत - पीएमजेएवाई

7,200




7,500


2023-24(ब.अ.) 2024-25(ब.अ.)

प्रमुख स्कीमों के लिए आवंटन (₹ करोड़ में)

उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना




सेमीकंडक्टर एवं डिस्प्ले विनिर्माण पारितंत्र के विकास हेतु संशोधित कार्यक्रम




प्रमुख स्कीमों के लिए आवंटन (₹ करोड़ में)

सौर ऊर्जा (ग्रिड)



राष्ट्रीय हरित हाईड्रोजन मिशन



Khan Global Studies

**Ultimate Online Learning Platform
for Competitive Exams**

www.khanglobalstudies.com

